



Spiritual Healing Camp



शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए अदृश्य विधियाँ

खोजी नं. : 57

दिनांक 17/11/2026

Name : Jayasingh
Middle Name : Shivaji
Surname : Hajare
शहर : Pune
लिंग Gender (पुरुष/स्त्री) : Male

तेजज्ञान फाउण्डेशन का The MahaAasmani Magic of Awakening शिविर किया है? (हाँ/ना) : No

१ यानी सबसे कम और १० यानी सबसे ज्यादा

भाग १

- १) आपके या अन्य खोजियों के मौन/ध्यान के अभ्यास में बाधा उत्पन्न करे, क्या ऐसी कोई मेडिकल दिक्कत MSY को आ सकती है? (हाँ/ना) : No
- २) क्या मौन के पालन में आपको कोई दिक्कत आती है? (हाँ/ना) : Yes
- ३) आज की तारीख में आपके अंदर चल रहे नकारात्मक विचारों की संख्या कितने प्रतिशत हैं? 30%
- ४) आपको नींद से संबंधित यदि कोई दिक्कत है तो वह कितने प्रतिशत है? 30%
- ५) आज की तारीख में यदि कोई शारीरिक बीमारी है तो वह कितने प्रतिशत है? No
- ६) आज की तारीख में आपके अंदर डर (fear) /anxiety की भावना कितने प्रतिशत महसूस होती है? 70%
- ७) आज की तारीख में आपका मानसिक आरोग्य कौन से स्तर पर है? 80%
- ८) आज की तारीख में आपकी निर्विचार या विचारशून्य अवस्था कौन से स्तर पर है? 35%
- ९) आज की तारीख में आपकी भावनात्मक स्थिरता कौन से स्तर पर है? 70%
- १०) आज की तारीख में आपकी जागृति (awareness) और साक्षीभाव कौन से स्तर पर है? 70%

भाग २

११) आज की तारीख में आपके अंदर नीचे दिए गए तनाव / stress की स्थिति कैसी है?

कुछ नए कार्य ऑर्गनाइज़ करने का तनाव : 20%

शादी या किसी फंक्शन का तनाव : No

नई ज़िम्मेदारी आने का तनाव : 20%

एग्ज़म का तनाव : No

नए फैमिली मेम्बर के जुड़ने का तनाव : No

बीमारी का तनाव : No

शारीरिक कमज़ोरी होने का तनाव: _____ 10%

वर्तमान का तनाव: _____ 2/10%

ऑफिस का तनाव: _____ 20%

किसी प्रोजेक्ट का तनाव: _____ 10%

कार्य स्थल पर अनकम्फर्टेबल चेयर: _____ No

लोगों से अटेंशन न मिलने का तनाव: _____ No

मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, ऐसा मन के कहने का तनाव: _____ No

मेरी कोई कद्र नहीं करता इस बात का तनाव: _____ No

अपना शौक पूरा नहीं करने का या करने का तनाव: _____ No

काम ही काम है का तनाव: _____ No

रात को नींद न आने का तनाव: _____ No

मौसम बदलने का तनाव: _____ No

शरीर में दर्द का तनाव: _____ No

बच्चों को पालकर बड़ा करने का तनाव: _____ No

भविष्य में पैसे कम पड़ने का तनाव: _____ No

मैं अकेले काम नहीं कर सकता का तनाव: _____ No

लोगों को मन की बात न बोल पाने का तनाव: _____ No

कुछ बोलने या न बोलने की फीलिंग: _____ No

फीलिंगज़ को दबाने का तनाव: _____ No

चीखना चाहते, चिल्लाना चाहते, नहीं कर पाने का तनाव: _____ No

परफॉर्मेंस बढ़ाने या न दे पाने का तनाव: _____ No

होमवर्क न करने का तनाव: _____ No

लोगों के प्रति द्वेष रखने का तनाव: _____ No

बदले की भावना न मिटने का तनाव: _____ No

नियम : १) दूसरों की गीता न पढ़ें। २) दूसरों को अपनी गीता न बताएँ। ३) ज्ञान के शब्दों का उपयोग हँसी मज़ाक (चीप टॉक) के लिए न करें।
 वचन : १) शिविर में बताई गई किसी भी अंनॉलॉजी, उदाहरण, समझ / मंत्र, सूत्र, भजन आदि का जिक्र, मैं किसी भी रूप से बाहर नहीं करूँगा / करूँगी इसलिए मैं ज़िम्मेदार और वचनबद्ध हूँ।

- २) मैं अपनी स्व-इच्छा से केवल अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और अपनी ज़िम्मेदारी पर यह शिविर कर रहा हूँ/ रही हूँ।
 ३) मैं स्व-इच्छा से, संपूर्ण रूप से अपनी सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि तेजज्ञान फाउण्डेशन के शिविरों में भाग लेने के दौरान किसी भी बात, वस्तु, परिस्थिति वश, मेरी लापरवाही या भूल-चूक से मुझ पर हुई किसी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए मैं खुद ज़िम्मेदार रहूँगा/रहूँगी, न कि संस्थान को ज़िम्मेदार ठहराऊँगा/ठहराऊँगी।
 ४) मैं तेजज्ञान फाउण्डेशन को अनुमति देता/देती हूँ कि वे विचार सेवा या फीडबैक सत्रों के दौरान या टी.वी, सोशल मिडिया, पब्लिक डोमेन, रेडियो पर मेरे किसी भी वीडियो/ऑडियो का कोई भी हिस्सा चला सकते हैं।

तेजज्ञान फाउण्डेशन एक स्वयंसेवी संस्था है, जहाँ सकारात्मक सोच रखते हुए, उच्चतम और आनंदित जीवन जीने हेतु सरश्री मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन उनकी शिक्षाओं पर, उनके बताए गए नियमों और वचनों पर काम करके, उस राह पर स्वयं को आगे बढ़ना होता है। इसमें कॉमन सेन्स (व्यवहारिक ज्ञान) का इस्तेमाल करते हुए, हमें स्वयं अपने व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखना होता है और जीवन के इन स्तरों में विकास करने की ज़िम्मेदारी भी स्वयं की होती है, संस्था की नहीं। इन सभी बातों की हामी भरते हुए, इस संस्था में बताए गए शिविर आप अपनी ज़िम्मेदारी पर कर रहे हैं, न कि किसी के दबाव में आकर।
 उपर दिए गए और शिविर के दिए गए सभी नियमों और वचनों का पालन करने के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। (हाँ/ ना) : _____